



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2011 (अग्रहायण 5, 1933)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2011 (AGRAHAYANA 5, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद-380014, दिनांक 2 नवम्बर 2011

सं. 37/PTMR/SRS/JML/SMC/10—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. श्रीराम आर. सोनी	11.12.2011 से 10.12.2012	जमालपुर, अहमदाबाद, गुजरात

एच. पी. सिंह
राज्य चिकित्सा आयुक्त

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक

सं. 13--32/2010-के.हो.प./के.हो.र. भाग-II--नवीनीकरण 1993-केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (पंजीकरण) विनियम 1982 के विनियम 9 जिसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973-(1973 की 59वां) की धारा 21 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए, पंजिका जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका के नाम से जाना जाता है। (जिसे भारत के राजपत्र में 02.01.1993 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त राजपत्र से हटाये नामों को भारत के राजपत्र दिनांक 09.08.2008 में छपा गया था) के कुछ पुनः स्थापित नामों को भारत के राजपत्र में, दिनांक 18 जून, 2011 में की सूची की तारतम्यता में कुछ और नाम पुनः स्थापित कर साधारण सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।

ललित वर्मा

रजिस्ट्रार

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत है तथा राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्ट्र में रजिस्ट्रीकरण दिनांक	राज्य रजिस्ट्र में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	यदि केन्द्रीय रजिस्ट्र से हटाया गया है, तो उसकी तारीख और उसका/उसके कारण	टिप्पणियाँ मूल केन्द्रीय पंजिका भाग II जो 02.01.93 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था के क्र. सं./केन्द्रीय पंजिका जो अगस्त 9, 2008 में प्रकाशित हुआ था के क्र.सं.
56	डॉ० एच.के.अब्दुल रजफ		आजाद होम्सोपैथिक क्लिनिक ओल्ड गनिगारा, एस.टी. हसान-573201	बैंगलोर	16.09.68	1539		165/138
57	डॉ० आचार्य हुनदाबन चन्द्र	विसम्बर आचार्य	पास्ट ऑफिस बेरहमपुर जिला गजनजम उडीसा, पिन-76006	उडीसा	29.01.70	1606		300/258
58	डॉ० आचार्य के.जी.एस.	कृष्णा चार्या के.	13-172, मधु रुदम नगर, हल्काजगरी	आन्ध्रप्रदेश	11.01.74	3172		310/267
59	डॉ० वी.अदी सक्तशिवाबलसूबर अमनियाराजा	वै कुन्दा राजाश्रुति ए.के.	1/244, पिलीरु कोली सैन्ट. पाक्कम-2, पोस्ट ऑफिस बिल्लपुरम डीटी.605106	तमिलनाडू	09.09.77	12518		357/306
60	डॉ० मनुकुन्दन अहमद		हाउस न०-596, ए.टी. रोड, शान्तिपुर, गुवाहाटी-9	असम	07.12.76	1873 (बी)		487/404
61	डॉ० अली शंकर		थकबरी रोड, पोस्ट ऑफिस नाउ, डीटी. बरपेटा असम	असम	31.03.76	1700		668/558
62	डॉ० भरपूर सिंह चाहिल	सन्त सिंह	जुजहर सिंह नगर, ग्रीवई चौक के पास, मेलकोटला-148023 जिला-सनगुरु	पंजाब	05.08.77	4122		679/568

63	डॉ० के.बी. अम्बिकापति	बासुवालिनगम	3/11, मेन रोड, नरसिंग पिटई-609802, थंगापुर तमिलनाडू	तमिलनाडू	05.06.75	2607		717 / 602
64	डॉ० एम.अनबजगन	म्युयान्दी आर.	न०.28, आम्स. नगर, करईकल-609605 पुडुचेरी	तमिलनाडू	03.06.77	1964		878 / 737
65	डॉ० आर. सुब्रह्मणियम	श्री आर. आथिनासामी	आर. मनजाकटई पोस्ट-चिदम्बरम तालुक साउथ आरकट डीटी.	तमिलनाडू	29.06.75	3528		2070 / 1723
66	डॉ० मनोहर लाल बंसल	बी.एल.बंसल	हिडोन रोड केरली (अलवर-राजस्थान)	राजस्थान	10.11.71	559		2207 / 1835
67	डॉ० एमआरएस. कमलेश भारद्वाज	पत्नी आर.के. भारद्वाज	"मैट्रीछाया" हाउस न०-165 / 1, हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास (हुआमेया टेम्पल) पोस्ट ऑफिस सुन्दर नगर-174401 (जिला हन्डी) एच.पी.	हरियाणा	30.09.77	1918		2629 / 2174
68	डॉ० आर. के. भारद्वाज	के.एल. भारद्वाज	"मैट्रीछाया" हाउस न०-165 / 1, हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास (हुआमेया टेम्पल) पोस्ट ऑफिस सुन्दर नगर-174401 (जिला हन्डी) एच.पी.	हरियाणा	30.09.77	1918		2637 / 2179

69	डॉ० ब्रजबंशु दास	विश्वानाथ दास	ए.टी.-नित्यानंदापुर पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर पाडा काया-बगुरीगोन डी-पुरी उडीसा पिन-752118	उडीसा	27.03.69	डी/1175	4258/3558
70	डॉ० दास मोहन	स्व. भजनी दास	हजुरी लेन, हयाबंदी साही, पी.ओ. जिला-पुरी	उडीसा	24.7.67	डी/1010	4398/3676
71	डॉ० राधे श्याम दास	लेट. सुरेन्द्र चन्द दास	ए.टी./पी.ओ. -मलकनगिरी, जिला-मलकनगिरी, स्टेट-उडीसा	हरियाणा	08.11.77	1934	4462/3732
72	डॉ० सच्चिदान्दा दास	बिस्वानन्द दास	ए.टी. चन्दन लेन, पोस्ट ऑफिस-नरेन्द्रकोने (वेस्ट) पुरी टाउन, पुरी पिन-752001, उडीसा	उडीसा	15.07.67	डी/1003	4480/3746
73	डॉ० सजल कुमार दास		प्यानथोरूमखरह बनागालक्ष्मी कम्पाउण्ड, शिलांग-1	मेघालय	15.10.84	13	4481/3747
74	डॉ० विनोद राय दवे	रामकिशन दवे	रोड नं०.02, पोस्ट ऑफिस कन्ताबम जिला बोलनगिर (उडीसा) 767039	उडीसा	22.09.64	763/ए	4566/3816
75	डॉ० धनश्याम दास गौतम	जर्नधन दास	हाउस नं०.5, इनडल्ला ब्रह्मगण मंगलम टाउन, जिला हरदवान वी.के.	पंजाब	01.03.77	3400	6414/5338

76	डॉ० शकुन्तला गोविंदा	सतीश गोविंदा	10—कान्ति नगर, लोको तानसेन टीडी. ग्वालिअर-474002 (एम. पी.)	मध्यप्रदेश	02.09.65	4257		6672/5562
77	डॉ० आर. गोविन्दन	रामासामी	न०.6/124, वेलाटा गोन्धम, विलेज सलेम तालुक एण्ड डीटी.	तमिलनाडू	15.02.77	1160		6702/5592
78	डॉ० रामचन्द्र गोवर	छोटे लाल गोवर	म.क. नं.475/22, न्यू कालोनी जमालपुर, नरसोल-123001	हरियाणा	02.09.76	344		6911/5770
79	डॉ० फूल चन्द गुप्ता	गोदा राम	कक्कर-बाजार-सोलन -173212, जिला-सोलन (एच.पी.)	हिमाचल प्रदेश	03.10.85	850-बी		7088/5921
80	डॉ० स्वामी हनुमन्तानन्द सरस्वती	स्वामी के. सरस्वती	स्वर्गश्वरम मन्वीअलगेट अधोस्ता अगोकर तहसील: पालमपुर जिला कनगोआ (एच.पी.)	हिमाचल प्रदेश	25.04.85	268-बी		7299/6103
81	डॉ० हरगोविन्द	भाग राम	हाउस न०.बी-आई, एक्स, 1311 विष्णु नगर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, जगाधीर वर्कसॉप, जिला-यमुना नगर (हरियाणा) पिन-135002	हरियाणा	02.09.76	243		7332/6129
82	डॉ० हरी चन्द	मूल चन्द	ए1/95, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-85	हरियाणा	24.02.77	908		7339/6135

83	डॉ० धन कुमार जैन	आर. के. जैन	मेमोरियल होम्यो. क्लीनिक-32, चकसीटा रोड मजार वाली गली देहरादून, उत्तराखण्ड	राजस्थान	12.11.71	868			7856/6580
84	डॉ० मग राज जैन	खनगर मल	ए.जे.-4, महावीर नगर, पी एण्ड टी कालोनी, बरमेर (राज.)	राजस्थान	10.11.71	134			7901/6620
85	डॉ० जलालुद्दीन	अजीमुल्लाह	विलेज चिन्वातहा, पी/ओ नसीर गंज, जिला सिद्धार्थ नगर (यू. पी.), पिन-272152	हरियाणा	18.11.77	2397			7996/5700
86	डॉ० एम. जमालुद्दीन	मोहम्मद इब्राहिम	न०.17, कादेर बवा स्ट्रीट, हयानगुडी, सिवागनगई जिला पिन-630702	तमिलनाडू	04.05.76	10377			8014/5718
87	डॉ० ए. जेसूदीस	ए. अरपुथम	48ए, 8थ स्ट्रीट, वेस्ट पूनागरम, मदुरई-625016	तमिलनाडू	11.04.75	1013			8382/7043
88	डॉ० ए. जॉन विलेहा	एनटोनिमुडु	ए जॉन विलेहा, महेल पट्टी विलेज, थनजावुरे-613104	तमिलनाडू	07.04.75	8147			8470/7120
89	डॉ० यू. जोसफ राज	आर. उथरियम पिलई	419, पुष्पम कालोनी सेकेंड स्ट्रीट, अरुलनंदा नगर, 10थ क्रॉस, वी.ओ. सी. नगर (पोस्ट ऑफिस) थनजावुर-613007 तमिलनाडू	तमिलनाडू	03.04.76	9884			8708/7315

90	डॉ० जोशी बाल किशन	याम लाल	हाउस न०.112, स्ट्रीट न०.../ए. गुरु नानक नगर, पटियाला	पंजाब	13.05.75	1311	8752/7355
91	डॉ० मंवर लाल जोशी	मोहन लाल जोशी	रघुनाथसर कुआ के पास, बीकानेर	राजस्थान	20.04.72	1429	8758/7360
92	डॉ० जोश जगन्नाथ	लक्ष्मण राव जोशी	हाउस न०.3-3-37, न्यू गोखलेनगर, रमनथपुर, हैदराबाद-500013, ए. पी.	आंध्रप्रदेश	12.08.85	3795	8779/7378
93	डॉ० कक्कर नरेन्द्र प्रकाश	रामचन्द्र कक्कर	214/1, दुधावाला, 24 के पास, कालीदास रोड, देहरादून (यू.के.)	हरियाणा	08.11.77	2256	8934/7516
94	डॉ० पालिनीसामी कालियममल	पलनी	428, टीचर कालोनी सिक्काघासनपालारिगन (पीओ) कोयम्बदूर (सीटी) तमिलनाडू	तमिलनाडू	31.05.75	4940	8974/7549
95	डॉ० कलिता गोलोक चन्द्र		आन्नदा होम्यो. फार्मसी पी.ओ. रंगिया, डबल्यू/न०.4, जिला कामपुर, असम, पिन-781354	असम	20.08.76	1779	9029/7594
96	डॉ० कमलदीन ए.	अब्दुल केदार	253बी-2, ताज क्लीनिक वी.एम. रोड, निसनाह पीरम के सामने बलूर, तमिलनाडू, पिन-621212	तमिलनाडू	24.11.77	12623	9133/7677

97	डॉ० के. कामाराज	कन्दासेमी के.पी.	2/29, राजा स्ट्रीट कल-पुडूर, एस. पप्पारा पाटी, (पी.ओ.) सलेम डी.टी. 636501	तमिलनाडू	01.03.76	9670		9138 / 7682
98	डॉ० आर. कनकसाबापाटई	रामासामी मुदालियर	रामपुरम पी.ओ. (छाया), तिरुवन्नमै तालुक नमककल जिला	तमिलनाडू	05.06.75	5453		9252 / 7769
99	डॉ० कोच्चर चरन दास	करन चन्द कोच्चर	दसमेह कोच्चर होम्बो. विलिनक विजाजी घर के पास पेसब कालोनी अमृतसर रोड तर्न, तरन, पंजाब	पंजाब	08.08.77	4233		10352 / 8679
100	डॉ० एस. राधा कृष्णन	सुबिया पी.सी.	अम्बागारा थूर-609601	तमिलनाडू	30.04.77	11290		10766 / 9041
101	डॉ० राम कृष्णन शर्मा	वाजीरु राम	विलेज ददहोमी पोस्ट ऑफिस शहलागहल्ट अरकी, सोलन, आन्ध्रप्रदेश, पिन-173208	हिमाचल प्रदेश	25.10.75	934		10772 / 9047
102	डॉ० सी. रामाकृष्णन	वी. दामोदरन	38 / 805, विथुनी स्ट्रीट, नूराणी पोस्ट ऑफिस पल्लखड-678004, केरला	हरियाणा	02.08.78	2821		10773 / 9048
103	डॉ० टी. कृष्णासामी	थाईलिंगा गोंडर	थोडामुथूर (पी.ओ.) पोलाचिट कोयमबदूर जिला. तमिलनाडू	तमिलनाडू	26.05.75	2105		10829 / 9101
104	डॉ० रमेश कुमार	प्रकाश लाल	1470, सुइवोलन दरियागंज, दिल्ली-110006	हरियाणा	06.08.77	1621		10992 / 9243

105	डॉ० ज्योति कुमार यज्ञा	क्यूबोल चन्द	82, ओल्ड गुप्ता कालोनी, दिल्ली-9 फोन नं० 27212855	हरियाणा	06.08.77	1710		11023/9269
106	डॉ० सरमिस्ता शर्मा	प्रेम प्रकाश	जैन मोहल्ला नादोन हमीरपुर	हरियाणा	16.08.77	1757		11085/9325
107	डॉ० तेज सिंह कुन्दल	खराज सिंह	विलेज एण्ड पोस्ट ऑफिस मगोरा (जजनपट्टी) जिला-मथुरा (यूपी.)	राजस्थान	01.05.72	1595		11133/9368
108	डॉ० मल्लिक लक्ष्मी चन्द	हरीश चन्द्र	वी +पी.ओ सरसा तहसील-पिहोआ जिला-कोकोहेहा, हरियाणा	हरियाणा	30.12.76	578		11761/9836
109	डॉ० मदन ध्यान सिंह	मंगल सिंह मदन	पी-42, प्रीत नगर, त्रिपुरी रोड, पटियाला (पंजाब) पिन-147001	पंजाब	13.05.75	1307		11929/9986
110	डॉ० डी. मल्लिंगम	दुरेस्वामी अयर	109-ए, दुर्गालया रोड, त्रिचुरापुर	तमिलनाडू	24.06.75	6935		12060/10100
111	डॉ० महन्ता लक्ष्मण	गुही राम महन्ता	ए.टी.-रोडना पोस्ट ऑफिस केरटोली खाया कन्काडनवाड-759028, धनीकनल (उड़ीसा)	उड़ीसा	13.09.71	2126/ए		12087/10123
112	डॉ० मलहन विद्या सागर	संसार चन्द मलहन	118-ए, गोविन्द विहार, बलताना, जिरकपुर (पंजाब) जिला-मोहाली पिन-140603	पंजाब	03.02.75	454		12181/10204

113	डॉ० मल्लिक पाल सिंह	लाल चन्द मल्लिक	बी. पौगराकुरी तहसील जिला—पानीपत 132104	हरियाणा	30.12.76	1846		12229 / 10244
114	डॉ० ई.पी. मणि	ई.पी. पताबीरमन	144 (ओल्ड) 158 ब्रोडवे, फर्स्ट फ्लोर, चेन्नई-600108	तमिलनाडू	02.05.75	533		12356 / 10357
115	डॉ० मनोहर लाल बंसल	राम प्रकाश	252, प्रेम नगर, नवामशाह	पंजाब	27.06.75	1886		12564 / 10546
116	डॉ० मथारू बलदेव सिंह	रनजीत सिंह	बी.एक्स.एक्स.-3293, गौरव नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना-141001	पंजाब	20.02.75	1785		12875 / 10818
117	डॉ० मोहन मदन	मुन्शी राम	हाउस न०.5269, स्ट्रीट कृष्ण नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	हरियाणा	06.08.77	1535		13793 / 11608
118	डॉ० पी. मुनीसामी	बी. पेरुमल	थिरुपापनडाल नार्थ कुम्बाकोनम नार्थ	तमिलनाडू	23.04.75	1365		14214 / 11961
119	डॉ० पी.के. नागाराजन	कुनगासाबापट्टी	न०.7, सिवान सैनीथी थिरु, मनमपेट रोड, विजीथियूर, कैरयकल-609607	तमिलनाडू	04.02.76	9519		15787 / 12525
120	डॉ० नागपाल जगजीत सिंह	वीर सिंह नागपाल	20 सी. रानी-के.ए. बाग अमृतसर (पंजाब) 143001	पंजाब	22.08.77	4343		15842 / 12574
121	डॉ० नागपाल राजेन्द्र पाल	कृपा राम नागपाल	हाउस न०.1282 / 19, सन्त नगर, सिविल रोड, रोहतक	हरियाणा	24.02.77	952		15849 / 12580

122	डॉ० सुरजन सिंह नागपाल	टी.सी. नागपाल	सुरजन सिंह नागपाल हाउस निकुंज निवास अपर शिव मंदिर अपर कोठई (कैथली) शिमला-3	हिमाचल प्रदेश	30.04.85	316/बी	15852/12587
123	डॉ० सी.टी. नमासिवायम	थन्डवा राजन डी.	राजन हॉस्पिटल 17एस, मेन रोड, न्यूली-807802	तमिलनाडू	25.06.75	7030	16158/12867
124	डॉ० शिबू कुमार नंदी		नामगेर पथ, डब्ल्यू/नोई, लंका नौगांव, असम	असम	31.03.76	1741	16240/12938
125	डॉ० कृष्ण सिंह नन्दा	ऊधम सिंह	929 सेक्टर-16, पंचकुला पिन कोड-134113 (हरियाणा)	पंजाब	19.03.76	2630	16241/12939
126	डॉ० नरेश चन्द	रूप चन्द	डॉ० नरेश चन्द होम्योपैथी बाजार जोडियन कुन वी+ पीओ- किरौआना (एस. नगर) यू.पी. 247774	हरियाणा	18.11.77	2443	16334/13020
127	डॉ० नरेन्द्र नाथ	दीना नाथ	हाउस नं० 153-बी, स्ट्रीट हकीमा जिला-पटियाला (पंजाब)	पंजाब	14.07.75	1814-बी	16740/13369
128	डॉ० धरम पाल	कुन्दन लाल	म.क.नं.1, ब्लॉक-जे/4, गोविन्द कालोनी पोस्ट ऑफिस राजपुरा-140401	पंजाब	09.09.75	2141	17239/13808

129	डॉ० राम पाल	श्री केदार नाथ	न्यू-मोहल्ला मली टाउन एरिया फतेह गंज (वेस्ट) जिला बरेली उत्तर प्रदेश	हरियाणा	18.11.77	2468		17249 / 13815
130	डॉ० सुरजीत सिंह सैनी	नरजन सिंह सैनी	विलेज डाइ पोस्ट ऑफिस डी.एम.सी.यू.टी. चन्दीगढ़	पंजाब	11.03.78	4949		22728 / 18638
131	डॉ० एस. सलीम	शमसकेरखान आर.	न्यू नो.191, मोसक्यू बिल्डिंग भवानी-638301, ईरोड डीटी.621715	तमिलनाडू	09.05.77	11346		22786 / 18689
132	डॉ० एम. समुदम	मुरुगैयन	42/4 वेस्ट स्ट्रीट तिरुमनूर (पोस्ट ऑफिस) अरियालुर डीटी.621715	तमिलनाडू	04.04.78	12750		22917 / 18805
133	डॉ० सोडी लाल सन्धू	हंस राज	मोहल्ला रतनपुर जी.टी. रोड, फगवारा-144401 कपूरथला (पंजाब)	पंजाब	15.02.75	512		23004 / 18887
134	डॉ० ए.आर. शंकर	राजाबहादर ए.	6, सुन्दारा मुदालियर एसटी, अरकोट-630503	तमिलनाडू	14.03.77	1363		23059 / 18936
135	डॉ० सरकार गोरंगा सीएच.		विलेज-नार्थ भोमोरापुरी, पोस्ट ऑफिस अम्बगन, आर. एस. रूपाहिट पिन-782120, जिला नागौन (असम)	असम	07.12.76	1844		23337 / 19181
136	डॉ० सेन रबीर सिंह	एन.एस. सन	विलेज-रोहटा पोस्ट ऑफिस दराहल, द. जोगिन्द्र नगर जिला-मन्डी (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	26.07.85	567 बी		24041 / 19813

137	डॉ० रमेश चन्द्र सुडेन	सुडेन दीनानाथ	जनता चैरिटीबल हॉस्पिटल हाउस न०. बी-35/प्लॉट न०.96 अपोजिट अम्बु करयाना स्टोर बेरीवाल, लुधियाना (पंजाब) पिन-141012	पंजाब	12.02.75	687	28428 / 23682
138	डॉ० हरबंस कौर ठाकुर	एस.एस. ठाकुर	विलेज अपर मकरैना पोस्ट ऑफिस एण्ड तहसील जोगिन्द्र नगर जिला मंडी (एच.पी.) 176120	हिमाचल प्रदेश	07.10.85	897-बी	29133 / 24312
139	डॉ० सी. वैयापुरी	चिन्नापणा गोंडर	33/44, मेट्टू स्ट्रीट-1, दादागाव्धी सलीम-6	तमिलनाडू	05.06.75	5841	30147 / 25201

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad, the 2nd November 2011

No. U-16/53/2003/Med. II (Guj) 37/ PTMR/SRS/JML/SMC/10—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on File No. Pt. File-U-13/12/13/2005-PTMR- (Med. I) dated 04.08.2008. I hereby authorized the following doctors(s) to function as Medical Authority at a monthly remuneration at a in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt :—

Name	Period	Name of Center/Place/Distt./State
Dr. Shriram R. Soni	11.12.2011 to 10.12.2012	Br. Office Jamalpur ESIC, A'bad Gujarat

H. P. SINGH
State Medical Commissioner

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

New Delhi, the

No. 13-12/2010-CCH/CRH-Part-II-Renewal 1993—The Central Council of Homoeopathy in pursuance of Regulation 9 of Homoeopathy Central Council (Registration), 1982, read with Sections 21 & 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), Renews the Register known as Central Council of Homoeopathy (Published in Gazette of India of 02.01.1993 and to read said Gazette with the list of removed names notified in the Gazette of India on 09.08.2008) by restoring some names in a list published in Gazette of India, dated June 18, 2011 and in continuation to it, some more names are being restored as being published in the Gazette of India for general information.

LALIT VERMA
Registrar

S. No.	Doctor's Name	Father's/Husband's Name	Address a) Residential b) Professional	State in which Registered and the authority granting the State Registration	Date of registration in State Register	Registration number given in the State Register	Remarks Entries of CRH S.No. in the Principal Central Registered Part-B Published on 02.01.93/S.No. Published on 9th August, 2008 in list of name of Practitioners removed.
56	Dr. H.K.Abdul Rawoof		Azad Homoeopathic Clinic Old Ganigara ST.Hassan 573201	Banglore	16.09.68	1539	165/138
57	Dr. Acharya Brundaban Chandra	Biswambar Achary	P.O.Berhampur Dist.- Gjanjam Orissa, Pin-76006	Orissa	29.01.70	1606	300258
58	Dr.Acharya K.G.S	Krishna Charya K.	13-172, Madhu rudam Nagar, Halkajgri, Hyderabad 50004	A.P	11.01.74	3172	310/267
59	Dr. V.Adi Sakthivabalasubramaniamaraja	Vai Kundha Rajarishi A.K.	1/244, Pillaiyar Koil St. Pakkam 2 P.O.Villupuram Dt. 605106	T.N	09.09.77	12518	357/306
60	Dr.Mahnuruddin Ahmed		House No - 596, A.T.Road, Santipur, Guwahat I -9	Assam	07.12.76	1873(B)	487/404
61	Dr.Ali Shankar		Thakubari Road, P.O Nowh. Dt. Barpeta Assam	Assam	31.03.76	1700	668/558

62	Dr. Bharpur Singh Chahil	Sant Singh	Jujhar Singh Nagar, Near Grewai Chowk, Malekotla- 148023 Distt. Sangrur	Punjab	05.08.77	4122	679/568
63	Dr. K.B. Ambikapathi	Basuvalingam	3/11, Main Road, Narasingan Pettai- 609802. Thangavur Tamilnadu	T.N	05.06.75	2607	717/602
64	Dr.M. Anbazhagan	Muhiyandi R.	No. 28, Ams. Nagar, Karaikal 609605 Puducherry	T.N	03.06.77	1964	878/737
65	Dr.R.Balasubramaniam	Shri Rathinasamy	Manjakottai Post - Chidambaram Taluk South Arcat Dt.	T.N	29.06.75	3528	2070/1723
66	Dr.Manohar Lal Bansal	B.L.Bansal	Hindaun Road Kerli (Alwar - Rajasthan)	Rajasthan	10.11.71	559	2207/1835
67	Dr. Mrs. Kamlesh Bhardwaj	W/o R.K. Bhardwaj	"Matrichhaya" H.No 165/1, Near Housing Board Colony (Huhameya Temple) P.O.Sunder Nagar 174401 (Dist Handi), H.P.	Haryana	30.09.77	1918	2629/2174
68	Dr.R.K. Bhardwaj	K.L.Bhardwaj	"Matrichhaya", Near Housing Board Colony (Huhameya Temple) P.O.Sunder Nagar 174401 (Dist Handi), H.P, Tel (01907) 266066	Haryana	30.09.77	1922	2637/2179
69	Dr.Brajabandhu Das	Biswanath Das	AT - Nityanandapur PO - Jaleswar Pada Via - Bangurigoan D - Puri Odissa Pin - 752118	Orissa	27.03.69	D/1175	4258/3558
70	Dr.Dass Mohan	Lt. Bhajani Das	Hazuri Lane, Harachandi Sahi, P.O. Dist. Puri	Orissa	24.7.67	D/1010	4398/3676

71	Dr. Radhey Shyam Dass	Lt. Surendra Ch. Dass	AT/PO - Malkangiri, Dist. Malkangiri, State - Odisha	Haryana	08.11.77	1934	4462/3732
72	Dr. Sachidananda Das	Biswananda Das	At. Chandan Lane, Po- Narendrakone (West) Puri Town, Puri Pin 752001, Orissa	Orissa	15.07.67	D/1003	4480/3746
73	Dr. Sajal Kumar Das		Pyanthorunkhrah Banagalaxmi Compound, Shillong-1	Meghalaya	15.10.84	13	4481/3747
74	Dr. Vinod Rai Dave	Ramakrishna Dave	Road No. 02. P.O. Kantabam Dist. Bolangir (Orissa) 787039	Orissa	22.09.64	763/A	4566/3816
75	Dr. Ghan Shyam Dass Gautam	Janardhan Dass	House No. 5, hahalla Brahmanan Manglam Town, Distt. Hardwan V.K	Punjab	01.03.77	3400	6414/5338
76	Dr. Shakuntla Govila	Satish Govila	10 - Kanti nagar, Loco Tansen Td. Gwalior 474002. (M.P)	Madhya Pradesh	02.09.65	4257	6672/5562
77	Dr. R. Govindan	Ramasamy	No 6/124, Vellata Goundam, Vill. Salem Taluk & Dt.	T.N	15.02.77	1160	6702/5592
78	Dr. Ramchander Grover	Chhote Lal Grover	H.No. 475/22, New Colony Jamalpur Narnaul 123001	Haryana	02.09.76	344	6911/5770
79	Dr. Phool Chand Gupta	Goadha Ram	Kakkar- Bazar- Solan 173212. Distt. Solan (H.P)	Himachal Pradesh	03.10.85	850-B	7088/5921
80	Dr. Swami Hanumanta nandan Saraswati	Swami K. Sarswati	Swargesharam Machhialghait Andretta Agokar Teshil : Palampur Dist. Kangoa (H.P)	H.P	25.04.85	268-B	7299/6103

81	Dr. Hargovind	Bhag Ram	H.No. B IX 1311 Vishnu Nagar Near Luxmi Narayan Mandir Jagadhri Workshop Distt. Yamuna Nagar (Haryana) Pin 135002	Haryana	02.09.76	243	7332/6129
82	Dr. Hari Chand	Mool Chand	A/195 Sector - 7 Rohini Delhi - 85	Haryana	24.02.77	906	7339/6135
83	Dr. Dhan Kumar Jain	R. K. Jain	Memorial Homoeo Clinic 32, Chaksauta Rd. Mazar Wali Gali Dehardun Ultra Khand	Rajasthan	12.11.71	868	7856/6580
84	Dr. Mag Raj Jain	Khangar Mal	AJ - 4, Mahaveer Nagar, P&T Colony, Barmer (Raj.)	Rajasthan	10.11.71	134	7901/6620
85	Dr. Jalaluddin	Azeemullah	Vill. Chinwataha. P/o nasir Gunj, Distt. Siddharth Nagar (U.P.), Pin 272152	Haryana	18.11.77	2397	7996/5700
86	Dr. M. Jamalathleen	Mohamed Ibrahim	No. 17, Kader Bava Street, Hayangudi, Sivagangai Distt. Pin 630702	T.N	04.05.76	10377	8014/5718
87	Dr. A. Jesudoss	A. Arputham	48A, 8th Street, West ponnagaram, Madurai 625016.	T.N	11.04.75	1013	8382/7043
88	Dr. A. John Chellai	Antonimuttu	A. Join Chellaiha, Mkhael patty Village, Thanjavure 613104	T.N	07.04.75	8147	8470/7120

89	Dr. U. Joseph Raj	R. Uthriam Pillai	419, Pushpam Colony 2nd Street Arulananda Nagar 10th Cross, VOC Nagar (Post Office) Thanjavur - 613007 Tamilnadu	T.N	03.04.76	9884	8708/7315
90	Dr. Joshi Bal krishan	Shyam Lal	H.No 112 St. No. / A Guru Nanak Nagar Patiala	Punjab	13.05.75	1311	8752/7355
91	Dr. Bhawar Lal Joshi	Mohan Lal Joshi	Near Roghunath sar Kua, Bikaner	Rajasthan	20.04.72	1429	8758/7360
92	Dr. Josh Jagannath	Lakshman Rao Joshi	H.No. 3-3-37, New Gokhalenagar, Ramanthpur, Hyderabad - 500013, A.P.	A.P	12.08.75	3795	8779/7378
93	Dr. Kakar Narindar Parkash	Ramchand Kakkar	214/1, Dodhalwala, Near 24 Kalidas Road Dehradun (UK)	Haryana	08.11.77	2256	8934/7516
94	Dr. Palanisamy Kaliammul	Palani	428, Teacher Colony Sikkadhasanpalarigan (Po), Mettupalayam (Po) Coimbatore (Dt), Tamilnadu	T.N	31.05.75	4940	8974/7549
95	Dr. Kalita Golok Chandra		Ananda Homoeo Pharmacy P.O. Rangia, W/No 4, Dist. Kampur, Assam, Pin - 781354	Assam	20.08.76	1779	9029/7594
96	Dr. Kamaldeen A.	Abdul Keder	253B2, Taz Clinic V.M. Raod, Opp. Nisnah Peram Balur Tamil Nadu Pin 621212	T.N	24.11.77	12623	9133/7677

97	Dr. K. Kamarai	Kandaseami K.P	2/29 Raja St. Kal - Pudur, S. Pappara Patty. (Po) Salem Dt. 636501.	T.N	01.03.76	9670	9138/7682
98	Dr. R. Kanakasabapathi	Ramasamy Mudaliar	Ramapuram P.O. (Via), Elachipalayam, Tiruchengode Taluk Namakkal Dist.	T.N	05.06.75	5453	9252/7769
99	Dr. Kochhar Charan Dass	Karan Chand Kochhar	Dashmeh Kochhar Homoeo. Clinic Near Bijli Ghar PSEB Colony Amritsar Road Tarn Taran P.B	Punjab	08.08.77	4233	10352/8679
100	Dr. S. Radha Krishnan	Subbia P.C.	Ambagara Thur 609601	T.N	30.04.77	11290	10766/9041
101	Dr. Ram Krishan Sharma	Waziru Ram	Vill Dadhogi P.O. Shalaghatt Arki, Solan, A.P. Pin- 173208	H.P	25.10.75	934	10772/9047
102	Dr. C. Ramakrishnan	V. Damodaran	38/805, Vithuni Street, Nurani P.O. Palakkad 678004 Kerala	Haryana	02.08.78	2821	10773/9048
103	Dr. T. Krishnasamy	Thalinga Gounder	Thondamuthur (P.O) Pollachi Coimbatore Dist. T.N	T.N	26.05.75	2105	10829/9101
104	Dr. Ramesh Kumar	Parkash Lal	1470 Suivolan Darya Ganj Delhi - 110006	Haryana	06.08.77	1621	10992/9243
105	Dr. Jyoti Kumar Yagya	Quaboal Chand	82 Old Gupta Colony Delhi - 9 Ph.27212855	Haryana	06.08.77	1710	11023/9269
106	Dr. Sarmishta Sharma	Prem Prakash	Jain Mohalla Nadaun, Hamirpur	Haryana	16.08.77	1757	11085/9325
107	Dr. Tej Singh Kuntal	Kharaj Singh	Vill & P.O. Magorra (Jajanpatti) Dist. Mathura (U.P)	Rajasthan	01.05.72	1595	11133/9368

108	Dr. Malik Laxmi Chand	Harish Chander	V+P.O. Sarsa Tehsil - Pehowa Dist. - Kwkoheha Haryana	Haryana	30.12.76	578	11761/9836
109	Dr. Madan Dhyan Singh	Mangal Singh Madan	P- 42, Preet Nagar, Tripuri Road, Patiala (PB) Pin - 147001	Punjab	13.05.75	1307	11929/9986
110	Dr. D. mahalingam	Duraisamy Iyer	109- A, Duragalaya Road, Tiruvapur	T. N	24.06.75	6935	12060/10100
111	Dr. Mahanta Laxman	Guhi Ram Mahanta	AT - Rodanga PO Kertoli Via Kankadnawad 759028 Dhanikanal (Orissa)	Orissa	13.09.71	2126/A	12087/10123
112	Dr. Malhan Vidya Sagar	Sansar Chand malhan	118-A, Govind Vihar Baitana Zirakpur (Punjab) Dist. Mohali Pin Code - 140603	Punjab	03.02.75	454	12181/10204
113	Dr. Malik Pal Singh	Lal Chand Malik	V. Pougurakuri Tehsil Dist. Panipat 132104	Haryana	30.12.76	1846	12229/10244
114	Dr. E.P. Mani	E.V. Pattabiraman	144(Old) 158 Broadway, First Floor, Chennai. 600108	T. N	02.05.75	533	12356/10357
115	Dr. Manohar Lal Bansal	Ram Prakash	252, Prem Nagar Nawamshah	Punjab	27.06.75	1886	12564/10546
116	Dr. Matharoo Baldev Singh	Ranjit Singh	BXX - 3293, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana - 141001	Punjab	20.02.75	1785	12875/10818
117	Dr. Mohan Madan	Munshi Ram	H.No. 5269 St. Krishan Nagar, Karol Bagh, New Delhi 110005	Haryana	06.08.77	1535	13793/11608
118	Dr. P. Munisamy	V. Perumal	Thiruppanandal North Kumbakonam North	T. N	23.04.75	1365	14214/11961

119	Dr. P. K. Nagarajan	Kunagasabapathy	No. 7, Sivan Sanithi Theru, Manampet Road, Vizhidiyur, Karaikal - 609607	T. N	04.02.76	9519	15787/12525
120	Dr. Nagpal Jagjit Singh	Vir Singh Nagpal	20 C, Rani - KA Bagh Amritsar (PB) 143001	Punjab	22.08.77	4343	15842/12574
121	Dr. Nagpal Rajender Pal	Kirpa Ram Nagpal	H.No. 1282/19, Sant Nagar, Civil Road, Rohtak	Haryana	24.02.77	952	15849/12580
122	Dr. Surjan Singh Nagpal	T. C. Nagpal	House Nikunj Niwas Upper Shiv Mandir Upper Koithai (Kaithli) Shimla - 3	H. P	30.04.85	316/B	15852/12587
123	Dr. T. Namasivayam	Thandava Rajan D.	Rajan Hospital 17S, Main Road Neyueli - 607802	T. N	25.06.75	7030	16158/12867
124	Dr. Shibu Kumar Nandi		Nandi Namger Path, W/Noe. Lanka Nagaon Assam	Assam	31.03.76	1741	16240/12938
125	Dr. Krishan Singh Nandra	Udham Singh	929 Sector - 16, Panchkula Pin Code 134113 (Haryana)	Punjab	19.03.76	2630	16241/12939
126	Dr. Naresh Chand	Roop Chand	Dr. Naresh Chand Homoeopathy Bazar Jodian Kuan V+Po- Kirana (M. Nagar) UP 247774	Haryana	18.11.77	2443	16334/13020
127	Dr. Narinder Nath	Dina Nath	H.No 153-B, Street Hakima, Nabha Dist. Patiala (PB)	Punjab	14.07.75	1814-B	16740/13369
128	Dr. Dharam Pal	Kundan Lal	H.No. 1, Block J/4, Gobind Colony P.O. Raipura - 140401	Punjab	09.09.75	2141	17239/13808
129	Dr. Ram Pal	Sh. Kedar Nath	New - Moh. Mali Town Area Fateh Ganj (West) Distt. Bareilly U.P.	Haryana	18.11.77	2468	17249/13815

130	Dr. Surjit Singh Saini	Naranjan Singh Saini	Vill. Dadu P.O. D.M.C.U.T. Chandigarh Pin 160014	Punjab	11.03.78	4949	22728/18638
131	Dr. S. Saleem	Shamsherkhan R.	New No. 191, Mosque Building Bhavani- 638301, Erode Dt. T.N	T.N	09.05.77	11346	22786/18689
132	Dr. M. Samudram	Murugaiyan	42/4 West St. Tirumanur (Po) Ariyalur Dt. 621715	T.N	04.04.78	12750	22917/18805
133	Dr. Sodhil Lal Sandhu	Hans Raj	Moh. Rattan Pur G.T. Road Phagwara- 144401 Kapurathala (P.B)	Punjab	15.02.75	512	23004/18887
134	Dr. A.R. Sankar	Rajabhadar A.	6, Sundara Mudaliar St, Arcot - 630503	T.N	14.03.77	1363	23059/18936
135	Dr. Sarkar Gauranga Ch.		Vill- North Bhomoraguri P.O. Ambagan. R.S. Rupahihat Pin - 782120, District. Nagaon (Ass.)	Assam	07.12.76	1844	23337/19181
136	Dr. Sen Ranbir Singh	N.S. Son	Vill. Rohta P.O. Darahai, The, Joginder Nagar District- Mandi (H.P)	H.P	26.07.85	567 B	24041/19813
137	Dr. Ramesh Chander Suden	Suden Dinanath	Janta Charitable Hospital H.No. B-35/ Plot No. 96 Opp. Ambu Karyana Store Barewal, Ludhiana (Punjab) Pin - 141012	Punjab	12.02.75	687	28428/23682
138	Dr. Harbans Kaur Thakur	S.S. Thakur	Vill. Upper Makraina P.O. & Tehsil. Joginder Nagar Dist. Mandi (H.P) 176120	Himachal Pradesh	07.10.85	897-B	29133/24312

139	Dr. C. Vaiyapuri	Chinnappa Gounder	33/44, Mettu St-1, Dadagapathy Salem -6	T.N	05.06.75	5641	30147/25201
-----	------------------	-------------------	--	-----	----------	------	-------------

LALIT VERMA
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011